



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 6 मार्च, 2023

फाल्गुन 15, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 109/79-वि-1-2023-1-क-3-2023

लखनऊ, 6 मार्च, 2023

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2023 जिससे वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 6 मार्च, 2023 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2023 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2023

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2023)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

31 मार्च, 2024 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2023 कहा जायेगा।

2-ऐसे विविध परिष्य चुकाने के निमित्त जो 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 733723,39,84,000 रुपये (रुपये सात लाख तैंतीस हजार सात सौ तेईस करोड़ उनतालिस लाख चौरासी हजार मात्र) होता है, अधिक न हो।

संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से वर्ष 2023-2024 के लिए 733723,39,84,000 रुपये का निकाला जाना

विनियोग

3-इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का प्राधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची
(धाराये 2 और 3 देखें)

1	2	3		
अनुदान	सेवाये और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अधिक		
		(लाख रुपयों में)		
क्रम संख्या		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
01	अवकाश विभाग	राजस्व : 58588.36	--	58588.36
		पूंजी : 4235.00	--	4235.00
02	अवकाश विभाग	राजस्व : 44004.60	--	44004.60
		पूंजी : 653853.40	--	653853.40
03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व : 104725.09	6.00	104731.09
		पूंजी : 87071.75	--	87071.75
04	उद्योग विभाग (खाने और खनिज)	राजस्व : 7802.20	--	7802.20
		पूंजी : 310.00	--	310.00
05	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	राजस्व : 14264.82	--	14264.82
06	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व : 76039.68	--	76039.68
		पूंजी : 1500.00	--	1500.00
07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व : 1075958.93	--	1075958.93
		पूंजी : 982695.17	--	982695.17
08	उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री)	राजस्व : 24833.70	--	24833.70
		पूंजी : 1080.95	--	1080.95
09	ऊर्जा विभाग	राजस्व : 3051171.36	289506.43	3340677.79
		पूंजी : 1645160.72	440583.56	2085744.28
10	कृषि तथा अन्य सम्बन्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)	राजस्व : 178610.52	320.14	178930.66
		पूंजी : 10451.58	--	10451.58
11	कृषि तथा अन्य सम्बन्ध विभाग (कृषि)	राजस्व : 736836.73	20.05	736856.78
		पूंजी : 71161.84	--	71161.84
12	कृषि तथा अन्य सम्बन्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	राजस्व : 68610.14	--	68610.14

अनुसूची				
--(क्रमशः)--				
1	2	3		
अनुक्रम/	सेवाएँ और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनुषंगिक		
		(लाख रुपये में)		
क्रम संख्या		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
13	कृषि तथा अन्य सम्बन्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	राजस्व : 578973.36	17.50	578990.86
		पूंजी : 2330227.40	--	2330227.40
14	कृषि तथा अन्य सम्बन्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्व : 1401581.32	--	1401581.32
		पूंजी : 57182.50	--	57182.50
15	कृषि तथा अन्य सम्बन्ध विभाग (जलधन)	राजस्व : 271100.49	13.79	271114.28
		पूंजी : 26655.14	--	26655.14
16	कृषि तथा अन्य सम्बन्ध विभाग (दुग्धपशु विकास)	राजस्व : 19862.99	--	19862.99
		पूंजी : 6950.00	--	6950.00
17	कृषि तथा अन्य सम्बन्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व : 45103.02	9.50	45112.52
		पूंजी : 50.00	--	50.00
18	कृषि तथा अन्य सम्बन्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व : 109514.90	1800.00	111314.90
		पूंजी : 19750.00	2495.28	22245.28
19	कर्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	राजस्व : 1370.21	--	1370.21
		पूंजी : 1943.00	--	1943.00
20	कर्मिक विभाग (लोक सेवा अयोग)	राजस्व : 13358.25	12412.17	25770.42
		पूंजी : 600.00	154.00	754.00
21	छात्र तथा रसद विभाग	राजस्व : 368480.24	6.00	368486.24
		पूंजी : 2206400.10	0.50	2206400.60
22	खेत विभाग	राजस्व : 26551.79	--	26551.79
		पूंजी : 69165.62	--	69165.62
23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व : 31114.85	2.00	31116.85
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उपयोग)	राजस्व : 6925.86	--	6925.86
		पूंजी : 149850.00	--	149850.00

अनुसूची				
--(क्रमशः)--				
1	2	3		
अनुदान	सेवाएँ और प्रयोजन	निम्नलिखित घनांकियों से अधिक		
		(लाख रुपये में)		
क्रम संख्या		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित विधि पर आधारित	योग
25	गृह विभाग (कारणार)	राजस्व : 129849.71	—	129849.71
		पूंजी : 73888.09	—	73888.09
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व : 3277872.05	400.00	3278272.05
		पूंजी : 438727.28	—	438727.28
27	गृह विभाग (नगरिक सुरक्षा)	राजस्व : 2740.96	—	2740.96
28	गृह विभाग (राजनैतिक दौरे तथा अन्य व्यय)	राजस्व : 39083.60	—	39083.60
		पूंजी : 705.06	—	705.06
*29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व : —	2704.42	2704.42
		पूंजी : —	50.01	50.01
30	गोपन विभाग (राजस्व विविध अभिवृद्धि मिशनार तथा अन्य व्यय)	राजस्व : 995.84	—	995.84
		पूंजी : 0.01	—	0.01
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व : 538833.60	—	538833.60
		पूंजी : 375715.85	—	375715.85
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व : 977648.76	20.00	977668.76
		पूंजी : 117970.97	—	117970.97
33	चिकित्सा विभाग (अपारंपरिक एवं दूनरी चिकित्सा)	राजस्व : 176634.67	—	176634.67
		पूंजी : 8567.04	—	8567.04
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	राजस्व : 66913.95	—	66913.95
		पूंजी : 4000.01	—	4000.01
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व : 1610669.16	45.00	1610714.16
		पूंजी : 249898.74	—	249898.74
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व : 109117.38	2.00	109119.38
		पूंजी : 21737.31	—	21737.31
*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या				

अनुसूची				
--(क्रमशः)--				
1	2	3		
अनुदान	सेवाएँ और प्रयोजन	निम्नलिखित पदनामियों से अनुभूति		
		(लाख रुपये में)		
क्रम संख्या		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित त्रिपि पर धारित	योग
37	ग्राम विकास विभाग	राजस्व : 2266972.53	--	2266972.53
		पूंजी : 267738.04	--	267738.04
38	नगरिक उपकरण विभाग	राजस्व : 10795.27	--	10795.27
		पूंजी : 178275.00	--	178275.00
39	भाषा विभाग	राजस्व : 5429.73	--	5429.73
40	नियोजन विभाग	राजस्व : 30647.36	--	30647.36
		पूंजी : 342925.88	--	342925.88
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व : 58277.50	--	58277.50
		पूंजी : 1040.00	--	1040.00
42	न्याय विभाग	राजस्व : 357916.85	81014.69	438931.54
		पूंजी : 347920.00	750.00	348670.00
43	परिवहन विभाग	राजस्व : 62795.08	0.01	62795.09
		पूंजी : 54676.91	--	54676.91
44	पर्यटन विभाग	राजस्व : 17990.11	--	17990.11
		पूंजी : 140803.01	--	140803.01
45	पर्यावरण विभाग	राजस्व : 1963.76	--	1963.76
46	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व : 2610.38	--	2610.38
47	प्रविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व : 76853.84	--	76853.84
		पूंजी : 20046.81	--	20046.81
48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व : 160993.37	1.80	160995.17
		पूंजी : 78977.78	--	78977.78
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व : 1242454.98	--	1242454.98
		पूंजी : 22110.00	--	22110.00

अनुसूची					
--(क्रमशः)--					
1	2	3			
अनुदान/	सेवाएँ और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अधिक			
क्रम संख्या		(लाख रुपये में)			
		विधान तथा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग	
50	राजस्व विभाग (किला प्रशासन)	राजस्व :	136051.76	27.00	136078.76
		पूंजी :	12697.55	--	12697.55
51	राजस्व विभाग (देवी विधियों के सम्बन्ध में रहत)	राजस्व :	420404.51	--	420404.51
		पूंजी :	61090.00	--	61090.00
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	474434.27	22.50	474456.77
		पूंजी :	6246.85	7.88	6254.73
53	राष्ट्रीय स्वयंसेवक विभाग	राजस्व :	168.40	--	168.40
54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व :	323832.15	4.00	323836.15
		पूंजी :	55.00	--	55.00
55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	राजस्व :	14348.50	671.50	15020.00
		पूंजी :	13096.00	505.00	13601.00
57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-लेट)	राजस्व :	12500.00	--	12500.00
		पूंजी :	412433.00	--	412433.00
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	राजस्व :	913260.82	5011.18	918272.00
		पूंजी :	1758252.00	3000.00	1761252.00
59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व :	38278.03	--	38278.03
		पूंजी :	23132.25	--	23132.25
60	वन विभाग	राजस्व :	91788.39	13.70	91802.09
		पूंजी :	99049.29	--	99049.29
61	श्रित विभाग (श्रम सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	2587531.65	4962277.15	7549808.80
		पूंजी :	16500.00	2675056.30	2691556.30
62	मित्र विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशने)	राजस्व :	7475368.31	76.31	7475444.62
		पूंजी :	20000.00	--	20000.00

अनुसूची

--(क्रमशः)--

1	2	3
अनुदान/	सेवाएँ और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक
		(लख रुपये में)
क्रम संख्या		विधान सभा द्वारा स्वीकृत राज्य की संयोजित विधि पर धारित योग
63	निरत विभाग (स्केवागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व : 34912.77 -- 34912.77
		पूंजी : 157.00 -- 157.00
65	निरत विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-मंचत आदि)	राजस्व : 40709.39 -- 40709.39
		पूंजी : 1340.91 -- 1340.91
66	निरत विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व : 4173.04 22091.37 26264.41
67	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व : 7830.25 116.05 7946.30
		पूंजी : 251.42 -- 251.42
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्व : 26027.38 385.39 26412.77
		पूंजी : 5400.30 55.00 5455.30
69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	राजस्व : 145949.50 -- 145949.50
		पूंजी : 58321.00 -- 58321.00
70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व : 82990.97 -- 82990.97
		पूंजी : 13100.00 -- 13100.00
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व : 7044151.78 -- 7044151.78
		पूंजी : 317253.47 -- 317253.47
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व : 1564580.42 -- 1564580.42
		पूंजी : 143717.86 -- 143717.86
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व : 400353.24 -- 400353.24
		पूंजी : 61664.49 -- 61664.49
74	गृह विभाग (होमगार्ड्स)	राजस्व : 287078.64 -- 287078.64
		पूंजी : 3342.42 -- 3342.42
75	शिक्षा विभाग(राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	राजस्व : 26953.87 -- 26953.87
		पूंजी : 4237.06 -- 4237.06

अनुसूची					
--(क्रमशः):					
1	2	3			
अनुदान/	सेवाएँ और प्रयोजन	निम्नलिखित धरातियों से अधिक			
		(ताम्र रुपये में)			
क्रम संख्या		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग	
76	ग्राम विभाग (ग्राम कल्याण)	राजस्व :	58142.49	--	58142.49
		पूंजी :	11518.26	--	11518.26
77	ग्राम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व :	15160.81	--	15160.81
		पूंजी :	459.26	--	459.26
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व :	172455.47	--	172455.47
		पूंजी :	500.20	--	500.20
79	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सहायक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	राजस्व :	372885.28	--	372885.28
		पूंजी :	15210.14	--	15210.14
80	समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	राजस्व :	975980.01	--	975980.01
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व :	99829.77	--	99829.77
		पूंजी :	79936.22	--	79936.22
82	संस्कृति विभाग	राजस्व :	7786.85	1286.30	9073.15
		पूंजी :	115.50	26.00	141.50
83	समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष ध्येय योजना)	राजस्व :	1751986.59	--	1751986.59
		पूंजी :	1310686.71	--	1310686.71
84	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व :	9529.94	--	9529.94
		पूंजी :	77519.00	--	77519.00
85	सार्वजनिक उपग्रह विभाग	राजस्व :	934.96	--	934.96
86	स्वच्छता विभाग	राजस्व :	97153.14	--	97153.14
		पूंजी :	1650.00	--	1650.00
87	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व :	6897.38	--	6897.38
		पूंजी :	1580.00	--	1580.00

अनुसूची (समाप्त):				
1	2	3		
अनुदान/	सेवाएँ और प्रयोजन	निम्नलिखित पदराशियों से अधिक (लाख रुपये में)		
क्रम संख्या		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर धारित	योग
89	राज्य कर विभाग	राजस्व : 124838.55	10.50	124849.05
		पूंजी : 4275.58	—	4275.58
91	स्टाज एवं निबन्धन विभाग	राजस्व : 54473.63	0.02	54473.65
		पूंजी : 7100.00	—	7100.00
92	संस्कृति विभाग	राजस्व : 12972.89	0.60	12973.49
		पूंजी : 27702.71	—	27702.71
93	न्यायिक गैर तथा ग्रामीण जलपूर्ति विभाग	राजस्व : 121276.18	—	121276.18
		पूंजी : 1676517.90	—	1676517.90
94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व : 470002.03	—	470002.03
		पूंजी : 895925.09	500.00	896425.09
95	सिंचाई विभाग (अभियान)	राजस्व : 607330.98	50.00	607380.98
	योग :	राजस्व : 46654758.84	5380345.07	52035103.91
		पूंजी : 18214052.40	3123183.53	21337235.93
	महायोग :	64868811.24	8503528.60	73372339.84

उद्देश्य और कारण

संविधान के अनुच्छेद 204 इस बात की अपेक्षा करता है कि विधान सभा द्वारा अनुपूरक अनुदानों की मांगें स्वीकृत किये जाने के बाद, राज्य के विधान मण्डल में एक विनियोग विधेयक पुरःस्थापित किया जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2023 को जो उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों तथा राज्य की समेकित निधि पर भारित व्यय के लिये अपेक्षित समस्त धनराशियों के विनियोग की व्यवस्था करता है, पुरःस्थापित किया जाता है

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 109(2)/LXXIX-V-1-2023-1-ka-3-2023

Dated Lucknow, March 6, 2023

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Viniyog Adhiniyam, 2023 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 3 of 2023) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 6, 2023. The Vitt (Aay-Vyayak) Anubhag-1 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH APPROPRIATION
ACT, 2023

(U.P. Act no. 3 of 2023)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to provide for authorising payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State to the services for the year ending on thirty-first day of March, 2024.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:—

- | | |
|---|--|
| 1. This Act may be called the Uttar Pradesh Appropriation Act, 2023. | Short title |
| 2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column-3 of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of Rs. 733723,39,84,000 (Rs. Seven lakh thirty three thousand seven hundred twenty three crore thirty nine lakh eighty four thousand only) towards defraying the several charges which will come in course of payment during the year ending on the thirty-first day of March, 2024 in respect of the services and purposes specified in Column-2 of the Schedule. | Issue of Rs.
733723,39,84,000
out of the
Consolidated
Fund of Uttar
Pradesh for the
year 2023-2024 |
| 3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh by this Act shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the year ending on the thirty-first day of March, 2024. | Appropriation |

SCHEDULE
(See Section 2 and 3)

1 Grant/Serial	2 Services and purposes	3 Sums not exceeding (In lakhs)		
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated fund of the State	Total
01	Excise Department	Revenue : 58588.36	--	58588.36
		Capital : 4235.00	--	4235.00
02	Housing Department	Revenue : 44004.60	--	44004.60
		Capital : 653853.40	--	653853.40
03	Industries Department (Small Industry and Export Promotion)	Revenue : 104725.09	6.00	104731.09
		Capital : 87071.75	--	87071.75
04	Industries Department (Mines and Minerals)	Revenue : 7802.20	--	7802.20
		Capital : 310.00	--	310.00
05	Industries Department (Handloom and Village Industries)	Revenue : 14264.82	--	14264.82
06	Industries Department (Handloom Industry)	Revenue : 76039.68	--	76039.68
		Capital : 1500.00	--	1500.00
07	Industries Department (Heavy and Medium Industries)	Revenue : 1075958.93	--	1075958.93
		Capital : 982695.17	--	982695.17
08	Industries Department (Printing and Stationery)	Revenue : 24833.70	--	24833.70
		Capital : 1080.95	--	1080.95
09	Power Department	Revenue : 3051171.36	289506.43	3340677.79
		Capital : 1645160.72	440583.56	2085744.28
10	Agriculture and Other Allied Departments (Horticulture & Sericulture Development)	Revenue : 178610.52	320.14	178930.66
		Capital : 10451.58	--	10451.58
11	Agriculture and Other Allied Departments (Agriculture)	Revenue : 736836.73	20.05	736856.78
		Capital : 71161.84	--	71161.84

SCHEDULE

—(Contd):

1	2	3			
Grant/Serial	Services and purposes	Sums not exceeding			
		(In lakhs)			
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated fund of the State	Total	
12	Agriculture & Other Allied Departments (Land Development & Water Resources)	Revenue : 68610.14	--	68610.14	
13	Agriculture and Other Allied Departments (Rural Development)	Revenue : 578973.36	17.50	578990.86	
		Capital : 2330227.40	--	2330227.40	
14	Agriculture and Other Allied Departments (Panchayati Raj)	Revenue : 1401581.32	--	1401581.32	
		Capital : 57182.50	--	57182.50	
15	Agriculture and Other Allied Departments (Animal Husbandry)	Revenue : 271100.49	13.79	271114.28	
		Capital : 26655.14	--	26655.14	
16	Agriculture and Other Allied Departments (Dairy Development)	Revenue : 19862.99	--	19862.99	
		Capital : 6950.00	--	6950.00	
17	Agriculture and Other Allied Departments (Fisheries)	Revenue : 45103.02	9.50	45112.52	
		Capital : 50.00	--	50.00	
18	Agriculture and Other Allied Departments (Cooperative)	Revenue : 109514.90	1800.00	111314.90	
		Capital : 19750.00	2495.28	22245.28	
19	Personnel Department (Training and Other Expenditure)	Revenue : 1370.21	--	1370.21	
		Capital : 1943.00	--	1943.00	
20	Personnel Department(Public Service Commission)	Revenue : 13358.25	12412.17	25770.42	
		Capital : 600.00	154.00	754.00	
21	Food and Civil Supplies Department	Revenue : 368480.24	6.00	368486.24	
		Capital : 2206400.10	0.50	2206400.60	
22	Sports Department	Revenue : 26551.79	--	26551.79	

SCHEDULE

--(Contd):

1	2	3			
Grant/Serial	Services and purposes	Sums not exceeding			
		(In lakhs)			
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated fund of the State	Total	
		Capital :	69165.62	--	69165.62
23	Cane Development Department (Cane)	Revenue :	31114.85	2.00	31116.85
24	Cane Development Department (Sugar Industry)	Revenue :	6925.86	--	6925.86
		Capital :	149850.00	--	149850.00
25	Home Department (Jails)	Revenue :	129849.71	--	129849.71
		Capital :	73888.09	--	73888.09
26	Home Department (Police)	Revenue :	3277872.05	400.00	3278272.05
		Capital :	438727.28	--	438727.28
27	Home Department (Civil Defence)	Revenue :	2740.96	--	2740.96
28	Home Department (Political Pension and Other Expenditure)	Revenue :	39083.60	--	39083.60
		Capital :	705.06	--	705.06
*29	Confidential Department (Governor's Secretariat)	Revenue :	--	2704.42	2704.42
		Capital :	--	50.01	50.01
30	Confidential Department (Revenue Special Intelligence Directorate and Other Exp.)	Revenue :	995.84	--	995.84
		Capital :	0.01	--	0.01
31	Medical Department (Medical Education and Training)	Revenue :	538833.60	--	538833.60
		Capital :	375715.85	--	375715.85
32	Medical Department (Allopathy)	Revenue :	977648.76	20.00	977668.76
		Capital :	117970.97	--	117970.97
33	Medical Department (Ayurvedic and Unani)	Revenue :	176634.67	--	176634.67
		Capital :	8567.04	--	8567.04
34	Medical Department (Homoeopathy)	Revenue :	66913.95	--	66913.95

*Serial number related to the charged appropriation

SCHEDULE

--(Contd):

1	2	3
Grant/Serial	Services and purposes	Sums not exceeding (In lakhs)
		Voted by the Legislative Assembly Charged on Consolidated fund of the State Total
	Capital :	4000.01 -- 4000.01
35	Medical Department (Family Welfare)	Revenue : 1610669.16 45.00 1610714.16
	Capital :	249898.74 -- 249898.74
36	Medical Department (Public Health)	Revenue : 109117.38 2.00 109119.38
	Capital :	21737.31 -- 21737.31
37	Urban Development Department	Revenue : 2266972.53 -- 2266972.53
	Capital :	267738.04 -- 267738.04
38	Civil Aviation Department	Revenue : 10795.27 -- 10795.27
	Capital :	178275.00 -- 178275.00
39	Language Department	Revenue : 5429.73 -- 5429.73
40	Planning Department	Revenue : 30647.36 -- 30647.36
	Capital :	342925.88 -- 342925.88
41	Election Department	Revenue : 58277.50 -- 58277.50
	Capital :	1040.00 -- 1040.00
42	Judicial Department	Revenue : 357916.85 81014.69 438931.54
	Capital :	347920.00 750.00 348670.00
43	Transport Department	Revenue : 62795.08 0.01 62795.09
	Capital :	54676.91 -- 54676.91
44	Tourism Department	Revenue : 17990.11 -- 17990.11
	Capital :	140803.01 -- 140803.01
45	Environment Department	Revenue : 1963.76 -- 1963.76
46	Administrative Reforms Department	Revenue : 2610.38 -- 2610.38
47	Technical Education Department	Revenue : 76853.84 -- 76853.84
	Capital :	20046.81 -- 20046.81
48	Minorities Welfare Department	Revenue : 160993.37 1.80 160995.17

SCHEDULE

--(Contd):

1	2	3			
Grant/Serial	Services and purposes	Sums not exceeding			
		(In lakhs)			
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated fund of the State	Total	
		Capital :	78977.78	--	78977.78
49	Women & Child Welfare Department	Revenue :	1242454.98	--	1242454.98
		Capital :	22110.00	--	22110.00
50	Revenue Department (District Administration)	Revenue :	136051.76	27.00	136078.76
		Capital :	12697.55	--	12697.55
51	Revenue Department (Relief on Account of Natural Calamities)	Revenue :	420404.51	--	420404.51
		Capital :	61090.00	--	61090.00
52	Revenue Department (Board of Revenue and other expenditure)	Revenue :	474434.27	22.50	474456.77
		Capital :	6246.85	7.88	6254.73
53	National Integration Department	Revenue :	168.40	--	168.40
54	Public Works Department (Establishment)	Revenue :	323832.15	4.00	323836.15
		Capital :	55.00	--	55.00
55	Public Works Department (Buildings)	Revenue :	14348.50	671.50	15020.00
		Capital :	13096.00	505.00	13601.00
57	Public Works Department(Communication- Bridges)	Revenue :	12500.00	--	12500.00
		Capital :	412433.00	--	412433.00
58	Public Works Department (Communications-Roads)	Revenue :	913260.82	5011.18	918272.00
		Capital :	1758252.00	3000.00	1761252.00
59	Public Works Department (Estate Directorate)	Revenue :	38278.03	--	38278.03
		Capital :	23132.25	--	23132.25
60	Forest Department	Revenue :	91788.39	13.70	91802.09
		Capital :	99049.29	--	99049.29

SCHEDULE

--(Contd):

1 Grant/Serial	2 Services and purposes	3 Sums not exceeding (In lakhs)		
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated fund of the State	Total
61	Finance Department (Debt Services and Other Expenditure)	Revenue : 2587531.65 Capital : 16500.00	4962277.15 2675056.30	7549808.80 2691556.30
62	Finance Department (Superannuation Allowances and Pensions)	Revenue : 7475368.31 Capital : 20000.00	76.31 --	7475444.62 20000.00
63	Finance Department (Treasury and Accounts Administration)	Revenue : 34912.77 Capital : 157.00	-- --	34912.77 157.00
65	Finance Department (Audit, Small Savings etc.)	Revenue : 40709.39 Capital : 1340.91	-- --	40709.39 1340.91
66	Finance Department (Group Insurance)	Revenue : 4173.04	22091.37	26264.41
67	Legislative Council Secretariat	Revenue : 7830.25 Capital : 251.42	116.05 --	7946.30 251.42
68	Legislative Assembly Secretariat	Revenue : 26027.38 Capital : 5400.30	385.39 55.00	26412.77 5455.30
69	Vocational Education Department	Revenue : 145949.50 Capital : 58321.00	-- --	145949.50 58321.00
70	Science and Technology Department	Revenue : 82990.97 Capital : 13100.00	-- --	82990.97 13100.00
71	Education Department (Primary Education)	Revenue : 7044151.78 Capital : 317253.47	-- --	7044151.78 317253.47
72	Education Department (Secondary Education)	Revenue : 1564580.42 Capital : 143717.86	-- --	1564580.42 143717.86
73	Education Department (Higher Education)	Revenue : 400353.24	--	400353.24

SCHEDULE

--(Contd):

1	2	3			
Grant/Serial	Services and purposes	Sums not exceeding			
		(In lakhs)			
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated fund of the State	Total	
		Capital :	61664.49	--	61664.49
74	Home Department (Home guards)	Revenue :	287078.64	--	287078.64
		Capital :	3342.42	--	3342.42
75	Education Department (State Council of Education Research & Training)	Revenue :	26953.87	--	26953.87
		Capital :	4237.06	--	4237.06
76	Labour Department (Labour Welfare)	Revenue :	58142.49	--	58142.49
		Capital :	11518.26	--	11518.26
77	Labour Department (Employment)	Revenue :	15160.81	--	15160.81
		Capital :	459.26	--	459.26
78	Secretariat Administration Department	Revenue :	172455.47	--	172455.47
		Capital :	500.20	--	500.20
79	Social Welfare Department (Empowerment Of The Handicapped & Welfare Of Backward Classes)	Revenue :	372885.28	--	372885.28
		Capital :	15210.14	--	15210.14
80	Social Welfare Department (Social Welfare & Welfare of Scheduled Castes)	Revenue :	975980.01	--	975980.01
81	Social Welfare Department (Tribal Welfare)	Revenue :	99829.77	--	99829.77
		Capital :	79936.22	--	79936.22
82	Vigilance Department	Revenue :	7786.85	1286.30	9073.15
		Capital :	115.50	26.00	141.50
83	Social Welfare Department (Special Component Plan for Scheduled Castes)	Revenue :	1751986.59	--	1751986.59
		Capital :	1310686.71	--	1310686.71
84	General Administration Department	Revenue :	9529.94	--	9529.94
		Capital :	77519.00	--	77519.00

SCHEDULE

(Contd):

1	2	3		
Grant/Serial	Services and purposes	Sums not exceeding		
		(In lakhs)		
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated fund of the State	Total
85	Public Enterprises Department	Revenue : 934.96	--	934.96
86	Information Department	Revenue : 97153.14	--	97153.14
		Capital : 1650.00	--	1650.00
87	Soldier's Welfare Department	Revenue : 6897.38	--	6897.38
		Capital : 1580.00	--	1580.00
89	State Tax Department	Revenue : 124838.55	10.50	124849.05
		Capital : 4275.58	--	4275.58
91	Stamps & Registration Department	Revenue : 54473.63	0.02	54473.65
		Capital : 7100.00	--	7100.00
92	Culture Department	Revenue : 12972.89	0.60	12973.49
		Capital : 27702.71	--	27702.71
93	Namami Gangey and Rural Water Supply Department	Revenue : 121276.18	--	121276.18
		Capital : 1676517.90	--	1676517.90
94	Irrigation Department (Works)	Revenue : 470002.03	--	470002.03
		Capital : 895925.09	500.00	896425.09
95	Irrigation Department (Establishment)	Revenue : 607330.98	50.00	607380.98
Total :		Revenue : 46654758.84	5380345.07	52035103.91
		Capital: 18214052.40	3123183.53	21337235.93
Grand Total :		64868811.24	8503528.60	73372339.84

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

ARTICLE 204 of the Constitution requires that an Appropriation Bill should be introduced in the State Legislature after the demands for grants have been assented to by the Legislative Assembly.

The Uttar Pradesh Appropriation Bill, 2023 which provides for the appropriation from and out of Consolidated Fund of Uttar Pradesh of all moneys required to meet the grants made by the Uttar Pradesh Legislative Assembly and the expenditure charged on the Consolidated Fund of the State in respect of the year ending on the thirty-first day of March, 2024, is introduced accordingly.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.